

वर्ष 2014-15 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियाँ

कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीआई)

राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान, फ़रीदाबाद (हरियाणा) ने एसपीएमसीआईएल के कार्यपालकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित किया । यह कार्यक्रम दो बैचों में आयोजित किया गया था - प्रथम बैच 01.12.2014 से 06.12.2014 तक तथा द्वितीय बैच 12.02.2015 से 17.02.2015 तक । प्रतिभूति कागज कारखाना से कुल 11 कार्यपालकों ने इसमें भाग लिया। कार्यपालक विकास कार्यक्रम प्रतिभागियों की चहुँमुखी ज्ञान वृद्धि एवं समग्र विकास पर केन्द्रित था । पाठ्यक्रम में कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में मददगार विषय यथा- वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला शामिल थे ।



सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद के प्रशिक्षण हाल में दिनांक 08.08.2014 को सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य खरीददारी का कार्य देखने वाले अधिकारियों को खरीद नियमों की जानकारी देना एवं प्रापण मैनुअल का अनुपालन करने का महत्व समझाना था । कुल 30 कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया ।

अनुशासनिक कार्रवाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिभूति कागज कारखाना,होशंगाबाद के प्रशिक्षण हाल में दिनांक 12.12.2014 से 13.12.2014 तक अनुशासनिक कार्यवाही का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित होती है, ऐसे मामलों पर की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई, तथा निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तरीके से जांच सुनिश्चित करना आदि पर केंद्रित था । उपलब्ध विभिन्न नियमों के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा । इसमें अधिकारियों ने प्रशिक्षक से अपने विभिन्न प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। प्रशिक्षण की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही । प्रशिक्षण में कुल 40 कर्मचारियों ने भाग लिया ।

रसायन(औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी: “रसायन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों में आपदाआपातकालीन तैयारी तथा आपदा जोखिम में कमी” में भाग लेने के लिए प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद से 5 कर्मचारियों को नामित किया गया । यह सम्मेलन दिनांक 09.02.2015 से 11.02.2015 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था ।